



# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

8 ज्येष्ठ, 1940 (श०)

संख्या- 540 राँची, मंगलवार

29 मई, 2018 (ई०)

### राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड

आदेश

23 मई 2018

संख्या-03नि0प0-34/2016 रा10नि0आ0 969-- यतः राज्य निर्वाचन आयोग को समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट जिला से त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन, 2015 के लिए जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है, स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा 68 क एवं 65 क 'क' सहपठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्व्यधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथा दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहा है ;

और यतः उक्त अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों ने सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उनके द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों पर (यदि कोई हो) विचार करने के पश्चात् राज्य निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त या न्यायोचित्य कारण नहीं है ;

अतः इस संबंध में उपायुक्त, सिमडेगा के प्रतिवेदन/अनुपूरक प्रतिवेदन एवं अभ्यर्थियों से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षोपरान्त अब राज्य निर्वाचन आयोग, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क, सहपठित झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा 68क एवं 65क 'क' के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को त्रिस्तरीय पंचायत निकायों/स्थानीय नगर निकायों के किसी भी पद या स्थान के लिए चुने जाने और निर्वाचित होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित किया जाता है।

## झारखण्ड गजट (असाधारण) मंगलवार, 29 मई, 2018

क्रमांक	जिला	निर्वाचन क्षेत्र	नाम एवं पता	कारण
1	2	3	4	5
1	सिमडेगा	XXI सिमडेगा-01	अजय कुमार जयसवाल, ग्राम-लबडेरा, पंचायत-बड़कीबिउरा	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
2		XXI सिमडेगा-01	थेओफिल किन्डो, ग्राम-झुनकाछापर भाईमुण्डा, पंचायत-गड़ियाजोर	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
3		XXI सिमडेगा-01	देवनीश खलखो, ग्राम-झिरकामुण्डा, पंचायत-कुरडेग	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
4		XXI सिमडेगा-02	रामाकान्त प्रसाद, ग्राम-रूसू, पंचायत-केरसई	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
5		XXI सिमडेगा-03	बीरेन्द्र बड़ाईक, ग्राम-मुण्डाटोली बोलबा, पंचायत-समसेरा	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
6		XXI सिमडेगा-05	असियान कन्दुलना, ग्राम-राजाबासा, पंचायत-राजाबासा	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
7		XXI सिमडेगा-05	प्रितम कन्दुलना, ग्राम-जामपानी कटहरटोली, पंचायत-जोराम	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
8		XXI सिमडेगा-06	पिंकी गुप्ता देवी, ग्राम-टैंसरा, पंचायत-टैंसेरा	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
9		XXI सिमडेगा-07	अनिता देवी, ग्राम-केशलपुर, पंचायत-केशलपुर	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
10		XXI सिमडेगा-09	सुदर्शन मुण्डा, ग्राम-ओड़गा, पंचायत-ओड़गा	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।

राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेश से,

ह०/-(अस्पष्ट),

उप निर्वाचन आयुक्त,  
राज्य निर्वाचन आयोग,  
झारखण्ड, राँची।

-----